



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 2009/माघ 29, 1930

No. 84]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2009/MAGHA 29, 1930

पर्यावरण और वन मंत्रालय

1 2

3

4

अधिसूचना

न्यूनतम
(मीटर)

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2009

चिमनी की
ऊँचाई
बृहत्लघु
मध्यम
बृहत्15
18
21(ii) डाउन इफट भट्टा के अलावा
(ईंधन) (कोयला).श्रेणी*
विविक्त कणसांद्रण
(मि.ग्रा./नार्मल घन मी.)
लघु
मध्यम300
200बृहत्
न्यूनतम
(मीटर)150
150
न्यूनतम
(मीटर)चिमनी की
ऊँचाई
बृहत्लघु
मध्यम
बृहत्15
18
21(iii) बाक्स, टनल, डाउन इफट भट्टायां
आदि (ईंधन : प्राकृतिक गैस/उत्पादक गैस/
एल पी जी अथवा ईंधनों का संयोजन/फर्नेस
आइल गौण ईंधन के रूप में)श्रेणी*
विविक्त कणसांद्रण
(मि.ग्रा./नार्मल घन मी.)
लघु
मध्यम200
150बृहत्
न्यूनतम
(मीटर)बृहत्
न्यूनतम
(मीटर)

क्र.	उद्योग	पैरामीटर	मानक
सं.			
1	2	3	4

" 102	उच्चताप्सह	क.	उत्सर्जन मानक
उद्योग		(i)	डाउन इफट भट्टा (ईंधन : कोयला)
		श्रेणी*	सांद्रण सीमा (मि.ग्रा./ नार्मल घन मी.)
		विविक्त कण	लघु/ मध्यम/बृहत् 350

1	2	3	4
चिमनी की ऊँचाई		लघु	12
		मध्यम	15
		बृहत्	18
श्रेणी*		उत्पादन (टन प्रति वर्ष)	
छोटी भट्टी		15000 से कम	
मध्यम भट्टी		15001-50,000	
बृहत् भट्टी		50,000 से अधिक	
(iv) सेटरी भट्टी(ईंधन फर्नेस आइल)			
श्रेणी**	सांद्रण	सीपा	
	(मि.ग्रा./नार्मल घन मी.)		
विविक्त कण	लघु	200	
	मध्यम/	150	
	बृहत्	न्यूनतम (मीटर)	
चिमनी की ऊँचाई	लघु	35	
	मध्यम	45	
	बृहत्	60	
श्रेणी**	उत्पादन (टन प्रति वर्ष)		
छोटी रोटरी भट्टी		50 से कम	
मध्यम रोटरी भट्टी		51—100	
बृहत् रोटरी भट्टी		100 से अधिक	

टिप्पणी :

- (i) विविक्त पदार्थ के सभी मान 6 प्रतिशत कार्बन डाइक्साइड पर सुधारे जाएंगे।
- (ii) किसी प्रक्रिया अथवा संयंत्र से अस्थायी उत्सर्जन 10 मि.ग्रा./घन मीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए।
- (iii) प्रत्येक चिमनी भवन या शेड अथवा उद्योग में संयंत्र के सबसे ऊँचे बिंदु लेकिन बकेट एलिवेटर, मिलहाउस और वाइब्रेटिंग स्क्रीन को छोड़कर, से कम से कम 2 मीटर ऊँची होनी चाहिए।
- (iv) यदि एक चिमनी में एक से ज्यादा भट्टी जुड़ी हो तब भट्टी की क्षमता को निर्धारित करने के लिए सभी भट्टियों की उत्पादन क्षमता के योग पर विचार किया जाएगा और तदनुसार कुल क्षमता पर निर्भर करते हुए उत्सर्जन मानक और चिमनी की ऊँचाई निर्धारित की जाएगी।
- (v) चिमनी की मानीटरिंग चार्जिंग के समय और चार्जिंग पूरा होने के बाद की जाएगी और इन दो परिणामों का औसत ही उत्सर्जन स्तर के रूप में माना जाएगा।

1	2	3	4
ख. बहिस्ताव मानक सांद्रण के लिए सीमित मूल्य (मि.ग्रा./लीटर) पी एच को छोड़कर सतही जल/धारा म्युनिसिपल सिंचाई के सीवर लिए भूमि			
पी एच	5.5 से 9.0	5.5 से 9.0	5.5 से 9.0
तेल और ग्रीस	10	20	10
बी ओ डी	30	250	100
3 दिन 27°C			
सी ओ डी	250	—	—
निलम्बित ठोस	100	600	200
फिनॉल्स	1.0	5.0	—
सायनाइड (CN के रूप में)	0.2	2.0	0.2
क्रोमियम (हेक्सावेलेन्ट)	0.1	2.0	1.0
क्रोमियम (कुल)	2.0	2.0	2.0"

[फा. सं. क्यू.-15017/36/2007-सी पी डब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844 (अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्कर्ता संशोधन सं. का.आ. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल 1987, सं. का.आ. 64(अ), तारीख 18 जनवरी 1988, सं. का.आ. 3(अ), तारीख 3 जनवरी 1989, सं. का.आ. 190(अ), तारीख 15 मार्च, 1989, स.का.नि. 913(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 1989, सं. का.आ. 12(अ), तारीख 8 जनवरी, 1990, सं. स.का.नि. 742(अ), तारीख 30 अगस्त, 1990, सं. का.आ. 23(अ), तारीख 16 जनवरी, 1991, स.का.नि. 93(अ), तारीख 21 फरवरी, 1991, स.का.नि. 95(अ), तारीख 12 फरवरी, 1992, स.का.नि. 329(अ), तारीख 13 मार्च, 1992, स.का.नि. 475(अ), तारीख 5 मई, 1992, स.का.नि. 329(अ), तारीख 13 मार्च, 1992, स.का.नि. 797(अ), तारीख 1 अक्टूबर, 1992, स.का.नि. 386(अ), तारीख 28 अप्रैल, 1993, स.का.नि. 422(अ), तारीख 19 मई, 1993, स.का.नि. 801(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 1993, स.का.नि. 176(अ), तारीख 3 अप्रैल, 1996, स.का.नि. 631(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 1997, स.का.नि. 504(अ), तारीख 20 अगस्त, 1998, स.का.नि. 7(अ), तारीख 2 जनवरी, 1999, स.का.नि. 682(अ), तारीख 5 अक्टूबर, 1999, स.का.नि. 742(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2000, स.का.नि. 72(अ), तारीख 6 फरवरी, 2001, स.का.नि. 54(अ), तारीख 22 जनवरी, 2002, स.का.नि. 371(अ), तारीख 17 मई, 2002, स.का.नि. 489(अ), तारीख 9 जुलाई, 2002, सं. का.आ. 1088(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2002 और

सा.का.नि. 849(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2002,
 सा.का.नि. 520(अ), तारीख 1 जुलाई, 2003,
 सा.का.नि. 92(अ), तारीख 29 जनवरी, 2004,
 सा.का.नि. 448 (अ), तारीख 12 जुलाई, 2004,
 शुद्धि-पत्र सा.का.नि. 520(अ), तारीख 12 अगस्त, 2004,
 सा.का.नि. 272(अ), तारीख 5 मई, 2005,
 सा.का.नि. 315(अ), तारीख 16 मई, 2005,
 सा.का.नि. 546(अ), तारीख 30 अगस्त, 2005,
 सा.का.नि. 46(अ), तारीख 3 फरवरी 2006,
 सा.का.नि. 464(अ), तारीख 7 अगस्त, 2006,
 सा.का.नि. 640(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2006,
 सा.का.नि. 566(अ), तारीख 29 अगस्त, 2007,
 सा.का.नि. 704(अ), तारीख 12 नवम्बर, 2007,
 सा.का.नि. 186(अ), तारीख 18 मार्च, 2008,
 सा.का.नि. 280(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008,
 सा.का.नि. 344(अ), तारीख 7 मई, 2008,
 सा.का.नि. 414(अ), तारीख 30 मई, 2008,
 सा.का.नि. 481(अ), तारीख 26 जून, 2008,
 सा.का.नि. 579(अ), तारीख 6 अगस्त, 2008,
 सा.का.नि. 600(अ), तारीख 18 अगस्त, 2008 और
 सा.का.नि. 752(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2008 द्वारा
 किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2009

G.S.R. 97(E).— In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, after serial number 101 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

S. No.	Industry	Parameter	Standard
1	2	3	4
"102 Refractory Industry			
A. Emission Standards			
(i) Down Draft Kiln (Fuel : Coal)			
Category* limiting concentration (mg/Nm ³)			
Particulate matter	small/ medium/ large	350	

	1	2	3	4
Stack height	small	15	Minimum (metres)	
	medium	18		
	large	21		
(ii) Other than Down Draft Kiln (Fuel : Coal)				
Category*	limiting concentration (mg/Nm ³)			
Particulate matter	small	300		
	medium	200		
	large	150		
Stack height	small	15	Minimum (metre)	
	medium	18		
	large	21		
(iii) Box, Tunnel, Down Draft Kiln, etc. (Fuel : Natural Gas/Producer Gas/ LPG or a combination of Fuels/ Furnace Oil as Secondary Fuel)				
Category*	limiting concentration (mg/Nm ³)			
Particulate matter	Small	200		
	medium/ large	150		
Stack height	small	12	Minimum (metre)	
	medium	15		
	large	18		
Category*	Production (tpa)			
small kiln	< 15,000			
medium kiln	15,001—50,000			
large kiln	above 50,000			
iv. Rotary Kiln (Fuel : Furnace Oil)				
Category**	limiting concentration (mg/Nm ³)			
Particulate matter	Small	200		
	medium/ large	150		
Stack height	small	35	Minimum (metre)	
	medium	45		
	large	60		
Category**	Production Small rotary (tpd)			
kiln	< 50			
medium rotary kiln	51—100			
large rotary kiln	above 100			

Note :—

- (i) All values of particulate matter are to be corrected at 6 per cent Carbon Dioxide.
- (ii) Fugitive emission shall not exceed 10 mg/m³ from any process or plant.
- (iii) Each stack shall be at least 2 metre above the top most point of the building, shed or plant in the industry excluding bucket elevator, mill house and vibrating screen.
- (iv) If more than one kiln is connected to single stack, sum of the production capacity of all the kilns would be considered for determining the capacity of the kiln and accordingly depending upon the total capacity, emission standard and stack height would be implemented.
- (v) Monitoring of stack shall be carried out at the time of charging and after the completion of charging and average of these two results shall be considered as emission level.

1	2	3	4	
		B. Effluent Standards		
		Limiting value for concentration (mg/l except for pH)		
		Inland Surface Water	Public Sewer	Land for Irrigation
pH		5.5 to 9.0	5.5 to 9.0	5.5 to 9.0
Oil and Grease		10	20	10
BOD _{3 days, 27°C}		30	250	100
COD		250	—	—
Suspended Solids		100	600	200
Phenols		1.0	5.0	—
Cyanide as CN		0.2	2.0	0.2
Cr(Hexavalent)		0.1	2.0	1.0
Cr(Total)		2.0	2.0	2.0

[F. No. Q-15017/36/2007-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 844(E), dated 19th

November, 1986 and subsequently amended *vide* S.O. 433 (E), dated 18th April, 1987, S.O. 64(E), dated 18th January, 1988, S.O. 3 (E), dated 3rd January, 1989, S.O. 190 (E), dated 15th March, 1989, G.S.R. 913(E), dated the 24th October, 1989, S.O. 12 (E), dated the 8th January, 1990, G.S.R. 742(E), dated the 30th August, 1990, S.O. 23(E), dated the 16 Jaunary, 1991, G.S.R. 93(E), dated the 21st February, 1991, G.S.R. 95(E), dated the 12th February, 1992, G.S.R. 329(E), dated the 13th March, 1992, G.S.R. 475(E), dated the 5th May, 1992, G.S.R. 797(E), dated the 1st October, 1992, G.S.R. 386(E), dated the 28th April, 1993, G.S.R. 422(E), dated the 19th May, 1993, G.S.R. 801(E), dated the 31st December, 1993, G.S.R. 176(E), dated the 3rd April, 1996, G.S.R. 631(E), dated the 31st October, 1997, G.S.R. 504(E), dated the 20th August, 1998, G.S.R. 7(E), dated the 2nd January, 1999, G.S.R. 682(E), dated the 6th October, 1999, G.S.R. 742 (E), dated the 25th September, 2000, G.S.R. 72(E), dated the 6th February, 2001, G.S.R. 54(E), dated the 22nd January, 2002, G.S.R. 371(E), dated the 17th May, 2002, G.S.R. 489(E), dated the 9th July, 2002, S.O. 1088(E), dated the 11th October, 2002, and G.S.R. 849(E), dated the 30th December, 2002, G.S.R. 520(E), dated the 1st July, 2003, G.S.R. 92(E), dated 29th January, 2004, G.S.R. 448(E), dated the 12th July, 2004, Corrigenda G.S.R. 520(E), dated the 12th August, 2004, G.S.R. 272(E), dated the 5th May, 2005, G.S.R. 315(E), dated the 16th May, 2005, G.S.R. 546(E), dated the 30th August, 2005, G.S.R. 46(E), dated the 3rd Februray, 2006, G.S.R. 464(E) dated the 7th August, 2006, G.S.R. 640(E), dated the 16th October, 2006, G.S.R. 566(E), dated the 29th August, 2007, G.S.R. 704(E), dated the 12th November, 2007, G.S.R. 186(E), dated the 18th March, 2008, G.S.R. 280(E), dated the 11th April, 2008, G.S.R. 344(E), dated the 7th May, 2008, G.S.R. 414(E), dated the 30th May, 2008 and G.S.R. 481(E), dated the 26th June, 2008, G.S.R. 579(E), dated the 6th August, 2008, G.S.R. 600(E), dated the 18th August, 2008 and G.S.R. 752(E), dated the 24th October, 2008.